



भारत सरकार, रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन 01/2018 (सहायक लोको पायलट एवं तकनीशियन के पद)

द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)

प्रश्नपत्र के साथ उत्तर एवं अंतिम कुंजी तथा अनंतिम अंक देखना

सीईएन 01/2018 के विरुद्ध सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के पदों के लिए द्वितीय चरण सीबीटी का आयोजन दिनांक 21.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019 तथा 08.02.2019 को किया गया था। वे सभी उम्मीदवार, जो इस सीबीटी में शामिल हुए थे, उन्हें उनके प्रश्न पत्र, उत्तर और उत्तर कुंजी देखने तथा यदि कोई आपत्ति रही हो, तो दिनांक 18.02.2019 से दिनांक 20.02.2019 तक उसे उठाने का अवसर दिया गया था।

उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जाँच के पश्चात्, भाग ए और भाग बी के सभी प्रश्नों के लिए उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया गया और द्वितीय चरण के सीबीटी में उम्मीदवारों के उत्तरों का मूल्यांकन किया गया।

रेलवे भर्ती बोर्ड अभिक्षमता परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच यह निर्णय लिया गया कि उम्मीदवारों की जानकारी के लिए भाग ए और भाग बी दोनों के लिए उम्मीदवारों के उत्तर के साथ अंतिम उत्तर कुंजी; उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, यदि कोई हो, तो उपेक्षित प्रश्नों की संख्या; अनंतिम वास्तविक, यथानुपात और सामान्यीकृत प्राप्तांक प्रकाशित किया जाए। तदनुसार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर दिए गए लिंक पर लॉगइन करें और अपना विवरण देखें। लिंक, दिनांक 23.03.2019 के 18.30 बजे से दिनांक 25.03.2019 के 23.59 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

सहायक लोको पायलट के पद के लिए अभिक्षमता परीक्षा के लिए चयनित किए गए उम्मीदवारों के परिणाम दिनांक 06.04.2019 को या उससे पहले प्रकाशित होने की संभावना है। कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा अनंतिम रूप से दिनांक 16.04.2019 को आयोजित होना निर्धारित है।

दिनांक : 23.03.2019

अध्यक्षगण
रेलवे भर्ती बोर्ड